



DEWAN Public School
J A G R I T I V I H A R



CLASS - V

Dear students,

The long awaited days are here.



A few days break away from the stress and work.

Now it is time to recharge yourself.

Explore the interesting assignments given as holiday homework.

GENERAL INSTRUCTIONS

- Do all the work neatly as specified by the subject teacher.
 - Revise full course of TEST-1.
-

English

☐ Prepare a dictionary having minimum 3 words of each letter of English alphabet with meaning and also make a sentence of each word to enhance the vocabulary. Cover it beautifully (make a small size pocket dictionary).

☐ Read Oliver Twist or The Secret Garden

☐ Write a short paragraph on My life during Covid - 19



Test -1 का समस्त पाठ्यक्रम याद कीजिए।


***अपने घर के आसपास अथवा जहां पर भी संभव हो निम्नलिखित पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ का पौधा लगाइए**

नीम /पीपल/ बरगद /आम/ जामुन/ अमरूद /बेल

उस पेड़ से संबंधित 10 पंक्तियों की एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

*हिंदी समाचार पत्र पढ़िए और उसमें आए 10 नए शब्दों को रेखांकित करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए।

***Do The given work on A4 size ruled sheet.**



Collect the information :-

a) Population of 5 states

b) Population of 5 countries

c) Distance between Moon and Earth

d) Height of Mount Everest in centimetres

and write them according to Indian system and International system of numeration (in words as well as in figures) .

***Do this work on A-4 size sheet**



EVIS

*** ☆ Choose any one city of your state (Uttar Pradesh) and collect the following information about it. Also paste pictures wherever needed.***

*** ☆ Find out the average maximum and minimum**



temperatures, both during Summer and Winter. Also find out the average rainfall.*


*** ☆ Find out about the people living there- their food habits, housing, clothing etc.***

*** ☆ Find out about the flora and fauna of that state *
Do your work on A-4 size sheet.**

Some tips to make this summer different :-

***An ideal time to polish your hobby.**

***Books are your best friends. Buy any book of your interest and read it well.**



***Computer games sharpen your brain but you need some exercise also.**

***Go cycling, play outdoor games.**



***Go for walks with the family.**

***Read newspaper daily.**

***Spend quality time with your grandparents.**



